



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37]
No. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 1981/मगध 14, 1902
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 1981/MAGHA 14, 1902

इस भाग में अलग-अलग संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहनविभाग)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1981

अधिसूचना

सांकांति० 44(अ) - सार्वजनिक खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के धारा 21 के साथ पठित सर्वेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे लिखे विधायकता है, अर्थात्—

1. मत्स्य पदार्थ तथा मत्स्य (1) ये निम्न नौवहन विभाग निधि (ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता) नियम, 1975 कहे जायेंगे।

(2) ये टालरो के अधिग्रहण तथा रख-रखाव के लिए मत्स्य कम्पनियों को ऋण तथा वित्तीय सहायता देने के बारे में लागू होंगे।

(3) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इत नियमों से जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो—

(क) “अधिनियम” का अर्थ सर्वेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44) होगा,

(ख) “आवेदन” का अर्थ नियम 3 के अन्तर्गत किया गया आवेदन होगा,

(ग) “अध्यक्ष” का अर्थ समिति का अध्यक्ष होगा,

(घ) “नियम” का अर्थ नौवहन विकास निधि समिति होगा,

(ङ) मत्स्य कम्पनी” का अर्थ कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत स्थापित और पंजीकृत कम्पनी होगा जिसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य से मछली पकड़ना हो,

(च) “नियम” का अर्थ जहाजगती विकास विधि होगा,

(छ) “नियम निदेशक” का अर्थ गैर सरकारी क्षेत्र में किसी मत्स्य कम्पनी के निदेशक पण्डित में (सरकारी निदेशक होगा जो कि सरकार के कब्जे या उसके नियंत्रण में नहीं है) समिति द्वारा नामित निदेशक होगा,

(ज) “सचिव” का अर्थ समिति का सचिव होगा और इसमें अपर, सयुक्त, उप और सहायक सचिव शामिल होंगे,

(झ) “टालर” का अर्थ एक मत्स्य जलपोत होगा जिसमें पर्स सीनर लागू लाइटर और बहुउद्देशीय मत्स्य के लिए एक समुक्त नौका भी शामिल है जिसकी प्रत्येक सामने में कुल लम्बाई 20 मीटर से कम न हो।

3. ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिए आवेदन—(1) कोई भी मत्स्य कम्पनी जो टालरो के अधिग्रहण और रख-रखाव के लिए निधि से ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है, ऐसे अधिकारी को आवेदन करेगी जिसे केन्द्रीय सरकार का कृषि विभाग इस सम्बन्ध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे (जिसे इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी कहा जाएगा)।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित प्रत्येक आवेदन पर नियमों के परिशिष्ट में दिए गए आवेदन-पत्र के भाग क में विनिर्दिष्ट फार्म में

दिया जायेगा। ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाली मत्स्यन कम्पनी के संकल्प की एक सत्यापित प्रति भी सलस्य की जाएगी।

4. आवेदन-पत्रों की छानबीन.—प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त किए गए प्रत्येक आवेदन-पत्र की छानबीन करेगा। छानबीन के बाद केन्द्रीय सरकार का कृषि विभाग आवेदन-पत्र के भाग 'ख' में आवश्यक प्रविष्टियाँ करके इसे सचिव को भेजेगा।

5. समिति द्वारा विचार-विमर्श.—फिर सचिव आवेदन को समिति के समक्ष इसकी अगली बैठक में या जरूरी होने पर अल्पश की स्वीकृति में विशेष रूप से बुलायी गयी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

6. समिति के निर्णय का रिकार्ड किया जाना.—प्रत्येक आवेदन पर समिति का निर्णय, जो कि समिति द्वारा विधिवत् धारित एक संकल्प के रूप में होगा, आवेदन-पत्र के भाग 'ग' में रिकार्ड किया जाएगा।

7. 100 लाख रुपये से अधिक मूल्य का ऋण केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन से दिया जाना.—जहाँ 100 लाख रुपये से अधिक मूल्य का कोई ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता केन्द्रिय सरकार के जहाजगती तथा परिवहन मंत्रालय के पूर्ण अनुमोदन के बिना मंजूर नहीं करेगी।

8. ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता की शर्तें.—(1) इन नियमों के अन्तर्गत मंजूर किया गया प्रत्येक ऋण या अन्य वित्तीय सहायता इन अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा समझ-बूझ पर विनिर्दिष्ट शर्तों पर होगी।

(2) किसी मत्स्यन कम्पनी का कोई ऋण अथवा वित्तीय सहायता तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि वह कम्पनी समिति का मन्तुष्टि के मुताबिक जमानत न दे दे।

9. निर्णय की सूचना भेजना.—सचिव आवेदन-पत्र पर लिए गए निर्णय और मत्स्यन कम्पनी को मंजूर की गयी ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता की शर्तों की सूचना मत्स्यन कम्पनी और केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग को देगा।

10. ऋण या अन्य वित्तीय सहायता की स्वीकृति तथा ऋण के कागज-पत्रों का कार्यान्वित करना.—(1) यदि मत्स्यन कम्पनी को ऋण या अन्य वित्तीय सहायता की शर्तें स्वीकार हों तो वह संचालक मण्डल की बैठक में या आवश्यकतानुसार कम्पनी की एक सामान्य बैठक में प्रस्ताव को पास करवाने की व्यवस्था करेगी, जिसमें इसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण या अन्य वित्तीय सहायता तथा कम्पनी की ओर से उप-नियम (5) में निर्धारित कागज-पत्रों का प्राप्ति करने और ऐसे कागज-पत्रों पर कम्पनी की सामान्य सील लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संकल्प में ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिए जमानत के रूप में दी जाने वाली प्रस्तावित परिस्थितियों का (जैसा भी मामला हो) अथवा उपर्युक्त उद्देश्य के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित अन्य जमानतों का ब्योरा देना होगा और यह भी उल्लेख करना होगा कि केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तें कम्पनी की स्वीकार्य हैं।

(3) सचिव की यह इच्छा होगी कि वह उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार मत्स्यन कम्पनी द्वारा या उसके तार से कागज-पत्रों का क्रियान्वित करवाए।

(4) किसी भी मत्स्यन कम्पनी को कोई ऋण अथवा वित्तीय सहायता तब तक निर्मुक्त नहीं की जाएगी जब तक कि मत्स्यन कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से समिति की मन्तुष्टि के मुताबिक जमानत के

सम्बन्ध में बन्धक-पत्र विधिवत् क्रियान्वित नहीं हो जाता और मत्स्यन कम्पनी ने—

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अनुसार कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास ऐसे गिरवी के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया जा और कम्पनी द्वारा जमानत के रूप में प्रस्तुत की गयी किसी अन्य परिस्थिति के गिरवी के मामले में वह अन्य प्राधिकारियों द्वारा रजिस्टर्ड न की गयी हों (जहाँ ऐसा करने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित हो) और इसके पश्चात् जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर्ड न की गयी हो,

(ख) ट्रालरों या समिति को जमानत के रूप में प्रस्तुत की गयी कम्पनी की अन्य परिस्थितियों के सम्बन्ध में बीमा की उचित पालिसियों त ले ली हों और ये पालिसियाँ समिति को विधिवत् सौंप दी हों,

(ग) ट्रालरों के गिरवी के दस्तावेज जहाजों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड न कर दिये हों,

(5) उप-नियम (2) में उल्लिखित दस्तावेज निम्नलिखित होंगे:

(क) ऋण स बन्धी करार,

(ख) जमानत के रूप में गिरवी रखे गए ट्रालरों के सम्बन्ध में गिरवी के दस्तावेज,

(ग) इकरारनामे के दस्तावेज के साथ बन्धक दस्तावेज भी सलग्न होगा,

(घ) समिति द्वारा अनुमोदित बैंक की गारन्टी या अन्य किसी जमानत के मामले में तत्सम्बन्धी कागज-पत्रों का कार्यक्षम देना होगा,

(ङ) अन्य कोई कागज-पत्र, जो समिति की राय में समिति के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समझे जायें।

11. ऋण की राशि की अदागी.—उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी द्वारा नियम 10 में उल्लिखित सत्र औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, सचिव ऋण की राशि के लिए कम्पनी को बैंक देना अथवा जिन मामलों में समिति का ट्रालरों के अधिग्रहण और रख-रखाव के लिए मत्स्यन कम्पनी की बकाया राशि की अदागी के लिए गारन्टी देने का हुक्म है उनके सम्बन्ध में सचिव दस्तावेज अथवा गारन्टी-पत्र तैयार करेगा और उनका समिति द्वारा अथवा उसकी ओर से क्रियान्वित करेगा। जिन मामलों में धनराशि विणतों में अदा की जानी है उनमें सचिव निम्नलिखित विधियों पर और ऐसी क्रियाओं की उचित धनराशि के लिए मत्स्यन कम्पनी को बैंक देगा।

12. ऋण की अदागी.—(1) उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी कृषि विभाग को सूचित करते हुए ऋण की शर्तों के अनुसार ऋण की राशि और उसके ब्याज की अदागी करेगी।

(2) कृषि विभाग तथा जहाँ उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी एक कर्माग है, या सरकार के कब्जे अथवा नियंत्रण में नहीं है, वह कम्पनी और सरकारी संचालक निम्नलिखित बातों पर निगरान रखेगा:—

(क) ऋण की अदागी पर और उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी द्वारा की गयी किसी बचत का सचिव की सूचना में लायेगा, जो शीघ्र समिति को ऐसी कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट करेगा जिसे कि समिति आवश्यक समझे,

(ख) सामान्य रूप से उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी के मामलों में और होने वाली किसी बात को शीघ्र सचिव की सूचना में लायेगा, जो उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी की ऋण

की पात्रता या समिति का गिरवी रखे गए द्वाजों की समुच्चय की उपयुक्तता को प्रभावित करे।

[फा० सं० एम० डब्ल्यू०/एम०एस०डी० (70)/79-एम०डी०]

ए० पद्मनाभन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

(देखिए नियम 3)

आवेदन-पत्र का फार्म

ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेक का नाम और पता निगमन की तारीख सहित।
2. मत्स्य कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी
3. ऋण : इक्विटी अनुपात :
4. निर्गत, अभिवृत्त और प्रदत्त पूंजी कम्पनी के लेखा परीक्षा द्वारा यथा प्रमाणित अथवा पिछले तुलन-पत्र के अनुसार।
5. क्या आवेक व्यापार पॉल अधिनियम, 1958 की धारा 21 की शर्तें पूरी करता है (विस्तारपूर्वक उत्तर दें)। कम्पनी के मामले में निवेशों का नाम और उनकी तकनीकी योग्यता :
6. आवेक के जहाज/जहाजों की संख्या और कुल जी०आर०टी० और उमका/उनका बीमा मूल्य और बाजार मूल्य भी।
7. यदि कम्पनियां तीन या अधिक वर्षों से अस्तित्व में हैं तो गत तीन वर्षों के तुलन-पत्र और हानि-लाभ लेखों की प्रतियां (जिनमें कार्य परिणाम, आस्तियां, देयताएं और लाभांश यदि कोई घोषित किया हुआ, दिया जाय)। अन्य के मामले में आवश्यक सूचना जहाँ तक उपलब्ध हो, दी जाए।
8. (क) अधिशेष धनराशि पिछली तुलन-पत्र तारीख को उपलब्ध।
 - (1) चालू आस्तियां
 - (2) ऋण और पेशगियां
 - (3) निवेश
- (4) अपूर्ण यात्राएं/प्रयाणित कमाई/जो अभी प्राप्त करी है।
- (5) अन्य चालू आस्तियां, यदि कोई हो (ब्योरा देने की कृपा करें)।

योग (1)

घटाएं. निवेश और अन्य चालू आस्तियां यदि कोई हों, जो जमानती के तौर पर रुका हुआ हो अथवा अन्यथा गतिशील हो (ब्योरा दें)।

(ख) हानि

(1) चालू देयताएं

- (2) प्राक्धान
- (3) अपूर्ण यात्राएं/अग्रिम कमाई
- (4) अन्य चालू देयताएं, यदि कोई हो (ब्योरा दें)।

योग (2)

(ग) निवल योग (1-2)-3

(घ) जमा करें—चालू वित्तीय वर्ष में संसाधनों का प्रजनन

- (1) मौजूदा बंडे पर मूल्यह्रास
- (2) मौजूदा बंडे पर निवल अति-शेष जिसमें व्याज प्रभारों के लिए व्यवस्था करने के बाद गैर परिचालन कमाई शामिल है।

(ङ) (1) वर्ष के दौरान सुपुर्द किए जलपॉलों पर मूल्यह्रास प्रत्येक के लिए अलग-अलग।

- (2) उपरोक्त प्रत्येक जलपॉल के लिए अलग-अलग परिचालन अधिशेष (उपरोक्त (1) और (2) के आगणनों का ब्योरा दें)।

(च) नौवहन विकास निधि समिति/सरकारी/अन्य संस्थानों से पहले ली गयी ऋण गारंटी सहायता (ब्योरा दें)।

(छ) अन्य मुख्य प्राप्ति, यदि कोई हो (ब्योरा दें)।

योग 4

योग 3 और 4-(5)

(ज) घटाएं—खर्च

- (1) मौजूदा बंडे पर शिपयाई/वित्तीय संस्थानों को कुल अदायगी।
- (2) वर्ष के दौरान सुपुर्द किए जल पॉलों पर यथोक्त कुल अदायगी (ब्योरा दें)।
- (3) निम्नलिखित के लिए नौवहन विकास निधि समिति/सरकार/अन्य वित्तीय संसाधनों को मूलधन की अदायगी

(क) पहले स्वीकृत किए ऋण

(ख) ऋण/गारंटी जिसके लिए आवेदन दिया (ब्योरा दें) :

(4) निम्नलिखित 80 व्याज का भुगतान :

(क) नौवहन विकास निधि समिति/सरकार/अन्य वित्तीय संसाधनों को।

यदि नहीं, तो कम्पनी इन शर्तों में क्या परिवर्तन चाहती है और किन कारणों से ?

- 17 (1) भविष्य में प्रत्याशित कार्य परिणाम, और
- (2) क्या ऐसे परिणाम आवेदक की बिना किसी कठिनाई के परिणोद्यन अवधि के अन्दर ऋण को वापस करने की सम्भावना को पूरी तरह से बनाने है ।

आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए

भाग 'ख'

(भारत सरकार के कृषि और मिर्चाई मंत्रालय के कृषि विभाग द्वारा भरा जाए)

- 1 क्या कृषि विभाग मन्तुष्ट है कि आवेदक द्वारा दिया गया व्यौरा उग हद तक सही है कि उसकी जाच पड़ताल की जा सकती है ।
- 2 खामर क्या आवेदक व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा करता है ?
- 3 क्या कृषि विभाग अपने तकनीकी अधिकारियों और सम्बन्धित राज्य के मत्स्य निदेशकों से ऐसा परामर्श, जैसा वे उचित समझे, करने के बाद मन्तुष्ट है कि खरीदे या बनाये जाने वाले जाल पोत उम कीमत के लिए जो बनाने या खरीदने के लिए दी जा रही है, के लिए उपयुक्त है और उम व्यापार के लिए जिसमें वे लगाये जायेंगे ।
- 4 क्या कृषि विभाग कम्पनी द्वारा मांगे गए ऋण देने की सिफारिश करने में ? क्या वे मन्तुष्ट है कि आवेदक परेशान अवधि के अन्दर ऋण वापस करने के योग्य है और कम्पनी द्वारा दी गयी जमानत जिसमें अन्तर्गम जमानत भी शामिल है, पर्याप्त है ?

5. (1) क्या कृषि विभाग ऋण देने के लिए सिफारिश करने समय आवेदक के नकद पूंजी समाधनों, आरक्षणों इत्यादि जिसका उन्होंने निर्माण किया हुआ है, पर विचार कर लिया है ? यदि हां तो क्या वे पूरे मांगे गए ऋण की सिफारिश करने हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?
- (2) क्या आवेदक ने भारत सरकार या नौवहन विकास निधि समिति द्वारा पहले ही दिए गए ऋण के लिए ऋण कागजान की शर्तों के अनुपालन में दोषी पाया गया है और यदि हां तो कितनी बार और किन

कारणों से और उसके क्या परिणाम निकले ?

- (3) क्या कृषि विभाग का आवेदक के कार्यों पर सरकार के किसी अन्य विभाग या किसी अन्य स्तरों से कोई प्रतिकूल विचार प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनका व्यौरा भी दिया जाए । इन प्रतिकूल विचारों के आधार पर क्या वे मांगे गए ऋण की किंमत में सिफारिश करते हैं । अगर हां, तो इसके सही कारण क्या हैं ?

- 6 यदि कम्पनी हमेशा की शर्तों में कुछ संशोधन चाहती है तो किस हद तक कृषि विभाग उसकी सिफारिश करने है और उनके क्या सही कारण हैं ?

- 7 क्या कृषि विभाग के प्रस्ताव पर कोई विवेक विचार है ?

कृषि और मिर्चाई मंत्रालय
(कृषि विभाग)

भाग 'ग'

नौवहन विकास निधि समिति का निर्णय

नौवहन विकास निधि समिति के सचिव के हस्ताक्षर

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1981

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government makes the following rules, namely :—

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Shipping Development Fund (Loans and Other Financial Assistance) Rules, 1981.

(2) They shall apply to loans and financial assistance to fishing companies for the acquisition and maintenance of trawlers.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) ;
- (b) "Application" means an application made under rule 3 ;
- (c) "Chairman" means the Chairman of the Committee ;
- (d) "Committee" means the Shipping Development Fund Committee ;
- (e) "fishing company" means a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having sea fishing as its main object ;
- (f) "Fund" means the Shipping Development Fund ;
- (g) "Nominee Director" means the director nominated by the Committee on the Board of Director of a fishing company in the private sector ;

(h) "Secretary" means the Secretary to the Committee and includes any Additional, Joint, Deputy and Assistant Secretary ;

(i) "trawler" means a fishing vessel and includes a purse-seiner, long liner and a combination vessel for multipurpose fishing, having, in each case, an overall length of not less than twenty metres.

3. Application for loan or other financial assistance.—

(1) A fishing company desirous of raising a loan or obtaining other financial assistance from the Fund for the acquisition and maintenance of trawlers shall apply to such officer as the Central Government in the Department of Agriculture may, by notification in the Official Gazette, authorise in this behalf (hereinafter referred to as the Authorised Officer).

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be made in such form as is specified Part 'A' of the form of application set out in the Appendix to these rules, and every such application shall be accompanied by an attested copy of the resolution of the fishing company authorising the raising of the loan or obtaining other financial assistance.

4. Scrutiny of application.—The Authorised Officer shall scrutinise every application received by him and after such scrutiny, the Central Government in the Department of Agriculture shall, after making necessary entries in Part B of the form of application, forward it to the Secretary.

5. Consideration by the Committee.—The Secretary shall then place the application before the Committee for consideration at its next meeting, or in case of urgency, at a meeting specially convened for the purpose with the approval of the Chairman.

6. Decision of the Committee to be recorded.—The decision of the Committee on each application, shall be recorded in writing in the form of minutes, duly approved by the Chairman.

7. Loan exceeding Rs. 100 lakhs to be made with the prior approval of Central Government.—The Committee shall not grant any loan or other financial assistance exceeding Rs. 100 (one hundred) lakhs in value except with the prior approval of the Central Government in the Ministry of Shipping and Transport.

8. Terms of loan or other financial assistance.—(1) Every loan or other financial assistance granted under these rules shall be on the terms and conditions specified from time to time by the Central Government in pursuance of sub-section (2) of section 16 of the Act.

(2) No loan or other financial assistance shall be granted to a fishing company unless such company has furnished security to the satisfaction of the Committee.

9. Communication of decision.—The Secretary shall communicate to the fishing company and to the Central Government in the Department of Agriculture the decision on the application and the terms and conditions under which the loan or other financial assistance has been granted to the fishing company.

10. Acceptance loan or other financial assistance and execution of loan documents.—(1) If the terms and conditions of the loan or other financial assistance are acceptable to the fishing company, it shall arrange to have a resolution, passed at a meeting of the Board of directors, or where necessary, the resolution of the company in general meeting, authorising the raising of the loan or obtaining other financial assistance on the terms and conditions, specified by the Central Government, and also authorise an officer of the fishing company to execute, on behalf of the fishing company, the documents specified in sub-rule (5), and to affix the common seal of the company on such documents.

(2) The resolution referred to in sub-rule (1) shall specify the assets, which are proposed to be offered as security for the loan or other financial assistance, as the case may be, or the other securities which are proposed to be offered for the purpose aforesaid, and that the terms and conditions specified by the Central Government are acceptable to the Company.

(3) It shall be the duty of the Secretary to get the documents, specified in sub-rule (5), executed by or on behalf of the fishing company.

(4) No loan or other financial assistance shall be released to a fishing company unless a deed mortgaging the trawlers/vessel has been duly executed by or on behalf of the fishing company, or such other security as is acceptable to the Committee has been duly furnished, to the satisfaction of the Committee and the fishing company has —

(a) registered such mortgage with the Registrar of the Companies as required by the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and in the case of mortgage of any other assets offered as security by the company it has been registered by other authorities where required by law so to do, and thereafter also registered with the Registrar of Companies as aforesaid ;

(b) taken out proper insurance policies in respect of the trawlers or any other assets of the company offered as security to the Committee and duly assigned such insurance policies to the Committee ;

(c) registered the mortgage deeds of the trawlers with the Registrar of Ships.

5. The documents referred to in sub-rule (2) are —

(a) the loan agreement,

(b) mortgage deed in respect of the trawlers mortgaged as security,

(c) the deed of covenants to accompany the mortgage deed,

(d) in the case of bank guarantee or any other form of security approved by the Committee, the relevant documents to be executed in that connection,

(e) tripartite agreement to be executed between shipyard, fishing company and SDFC.

(f) any other documents which in the opinion of the Committee is considered necessary and essential to safeguard the interests of the Committee.

11. Payment of Loan Amount.—After all formalities referred to in rule 10 have been complied with by the borrowing fishing company, the secretary shall draw a cheque in favour of the company for the amount of loan, or, where the Committee intends to give a guarantee for the due payment of the due, of the fishing company in relation to the acquisition and maintenance of trawlers, the Secretary shall draw up the deed, or letter of guarantee and get it executed by or on behalf of the Committee, and where the amount is to be paid in instalments, the Secretary shall draw the cheques in favour of fishing company on the due dates and for the appropriate amount of such instalments.

12. Payment of Loan.—(1) The borrowing fishing company shall repay the amount of the loan and the interest thereon in accordance with the terms and conditions of the loan, under intimation to the Department of Agriculture ;

(2) The Department of Agriculture and, where the borrowing fishing company is a company which is not owned or controlled by Government, also the Nominice Director shall keep a watch,—

(a) on the repayment of the loan and shall bring any default by the borrowing fishing company to the notice of the Secretary who shall immediately make a report to the Committee for such action as the Committee may consider necessary ;

(b) generally on the affairs of the borrowing fishing company and shall immediately bring to the notice of the Secretary any happenings or development which may affect the creditworthiness of the borrowing fishing company or the sea-worthiness of the trawlers mortgaged to the Committee.

[F. No. SW/MSD(70)/79-MD]

A. PADMANABAN, Jt. Secy.

APPENDIX

(See rule 3, 4, and 6)

FORM OF APPLICATION

PART A

APPLICATION FOR LOAN OR OTHER FINANCIAL ASSISTANCE

1. Name and address of the applicant with date of incorporation :
2. Authorised Capital of the fishing Company :
3. Debt Equity Ratio :
4. Issued, subscribed and paid-up capital as certified by the company auditor or as per last balance sheet :
5. Does the applicant satisfy the requirements of section 21 of the Merchant Shipping Act, 1958 (Give details to elucidate the answer) In case of company, names of Directors and their technical qualifications :
6. Number and total G.R.T. of vessel(s) owned by the applicant and its/their insured value and also its/their market value :
7. In the case of companies in existence for three years or more copies of balance sheet and profits and loss accounts for the last three years (indicating working results assets liabilities and dividends if any, declared) may be furnished. In the case of others necessary information to the extent available may be furnished
8. Surplus funds available as on
 - (a) Last Balance Sheet date.
 - (i) Current assets.
 - (ii) Loans and advances.
 - (iii) Investments.
 - (iv) Unfinished Voyages/anticipated earnings/still to be recovered.
 - (v) Other current Assets, if any, (details may please be furnished)

Total (I)

Less investment and other current assets, if any, tied up as security or otherwise not mobilizable (Details may be furnished).

(b) :

- (i) Current Liabilities.
- (ii) Provisions.
- (iii) Unfinished voyages/advance earnings.
- (iv) Other current liabilities, if any, (furnish details).

Total (II)

- (c) Net total (I-II)-III
- (d) Add : Generation of resources during the current financial year.
 - (i) Depreciation on existing fleet.
 - (ii) Net surplus on existing fleet (after providing for interest charges), including Non-Operating earnings.
- (e) (i) Depreciation on trawlers delivered during the year, separately for each.
- (ii) Operating surplus on above separately for each trawler (indicate details of calculations of (i) and (ii) above).

- (f) Loans guarantee assistance earlier taken from Shipping Development Fund Committee/Government/Other institutions (Give details).

- (g) Other Capital Receipts; if any (give details).

Total IV

- (h) Total III and IV-(V)

(1) Deduct out go :

- (i) Gross payment to Shipyard/Financing Institutions on existing fleet.
- (ii) Gross payment as above on trawlers delivered during the year (give details).
- (iii) Repayment of principal to Shipping Development Fund Committee/Government/other financing institutions on :
 - (a) Loans already sanctioned.
 - (b) Loans/guarantee applied for (give details).
- (iv) Payment of interest to :
 - (a) Shipping Development Fund Committee/Government/other financing institutions.
 - (b) To Shipyard or trawler delivered during the year (unless the interest charges have already been taken into account in arriving at New Surplus).
 - (v) Dividend.
 - (vi) Other Capital out-go, if any, like Tax etc.

Total (VI)

- (b) To Shipyard or trawler delivered during the
- (k) (Deduct) working capital requirement (Basis of assessment may be given).

Total VIII

Note : In future years, only the increase on this account if any, is to be provided for. Reasons for proposing the increase should be explained.

(1) Net Surplus Resources available as on (the end of the current financial year) (i.e. VII-VIII)

Note : Similar statement should be prepared for the next four years.

- (j) Net Surplus available (i.e. V-VI)-VII ties upon the end of the assessment year preceding the date of application of loan.
- (ii) Provision made to meet such liabilities and particulars thereof.
- (iii) The actual annual assessment for income-tax and other taxes as against details given in (i) above.
- (iv) Whether any proceedings were taken or are pending against the applicant for recovery of taxes ? If so, furnish full details.

10. Particulars of loan(s) if any, already granted to the applicant by Government of India/Shipping Development Fund Committee.

- (i) Amount/s of loan/s, date of grant and rate of interest.
- (ii) Trawlers against which the loan/s was/ were granted.
- (iii) Repayment(s) commended or to commence from which date and to be made in how many instalments.
- (iv) Whether there has been in the past any default in the payment of instalment of other principal or interest and, if so, on how many occasions and for what reasons.

PART B

(To be filled by the Department of Agriculture in the Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India).

- (v) What action, if any, was taken by the lending authority in connection with the default referred to above.
- (vi) Outstanding balance of Government/Shipping Development Fund Committee loan(s) and also other loan(s) if any.
11. (i) Whether there has been any default in the compliance of any of the terms of the loan agreements and other loan documents in respect of loans mentioned in item 10 and, if so, on how many occasions and for what reasons.
- (ii) Whether the applicant has been subject to punitive action by other Ministries/Departments of Government and, if so, the particulars thereof and the reasons therefor. Full details should be furnished.
12. (i) Trawlers now proposed to be acquired or built.
- (ii) Area in which the trawlers to be acquired or built will be operated.
- (iii) Cost of trawlers.
- (iv) Amount of loan or other financial assistance now required from the fund.
13. What security, in addition to the mortgage of the loan trawler, is the company prepared to offer, if so, required by the Shipping Development Fund Committee and pending the building of the loan trawler, what interim security is proposed to be furnished ?
14. If the trawler(s) in the existing conditions, and is/are proposed to be purchased second-hand, if the applicant is satisfied that the trawler(s) is/are (a) in good condition (b) the price is reasonable (c) suitable for the trade for which intended ? Copies of any reports etc. received by the Company regarding (a) may be furnished.
15. What documentary proof the applicant furnishes in support of the actual cost of acquisition or building of the trawlers.
16. Whether the applicant is aware of the terms on which the loans are usually granted by the Shipping Development Fund Committee and, if so, whether the company is prepared to accept them in entirety : or, if not, in what respect the company desires modification of these terms and for what reasons ?
17. (i) Anticipated working results in future, and
- (ii) Whether such results fully establish the possibility of the applicant repaying the loan within the period of amortisation with any difficulty.

To be signed by the applicant or his authorised representative.

1. Is the Department of Agriculture satisfied that the particulars furnished above by the applicant are correct to the extent that they can be verified ?
2. In particular, does the applicant satisfy the requirements of section 21 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) ?
3. Is the Department of Agriculture generally satisfied after making such consultation as they deem necessary from their Technical Officers and Director of Fisheries of the State concerned, that the fishing vessel(s) proposed to be purchased or built is/are good for the price proposed to be paid and is/are suitable for the trade(s) in which it is intended to be put ?
4. Does the Department of Agriculture recommend the grant of loan applied for by the fishing company ? Are they satisfied that there is a reasonable prospect of the applicant being able to repay the loan within the period of amortisation and the security offered by the company including the interim security is good and sufficient ?
5. (i) Whether the Department of Agriculture, while recommending the grant of loan, has taken into consideration the liquid cash resources of the applicant available with it and reserves built by it ? If so, do they still recommend the full loan applied for and, if so, for what reasons ?
- (ii) Whether the applicant has committed any default in the compliance of the terms of the loan documents in respect of loans already granted either by Government of India or the committee, and, if so, on how many occasions and for what reasons and with what results ?
- (iii) Has the Department of Agriculture come across any adverse remarks from other departments of the Government or other sources in the activities of the applicant, and if so, details thereof may be given. In the light of these adverse remarks, do they still recommend the loan applied for and if so on what precise grounds ?
6. In case the applicant desires any modifications of the usual terms to what extent does the Department of Agriculture recommend them and on what precise grounds ?
7. Has the Department of Agriculture any special comments to offer on the proposal ?

Department of Agriculture
Ministry of Agriculture and Irrigation.